



म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल

(पूर्व - म.प्र. राज्य ओपन स्कूल)
 मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग
 शिवाजी नगर, भोपाल - 462011

Phone : 0755 - 2761066
 : 0755 - 2552106
 Web Site : www.mpsos.nic.in
 E-Mail : mpsos2022@gmail.com

क्रमांक/एस.ओ.एस.ई.बी./परीक्षा-3/2024 1635
 प्रति,

भोपाल दिनांक 24/04/2024

प्राचार्य (समस्त परीक्षा केन्द्र)

SOM/SOE परीक्षा

मध्यप्रदेश

विषय:- उत्कृष्ट / मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 आयोजित करने हेतु नियम-निर्देश एवं विभिन्न प्रारूप के संबंध में।

—00—

1 विषयान्तर्गत चयन परीक्षा 2024 दिनांक 30.04.2024 को प्रदेश स्तर पर आयोजित होगी।

2 आपके केन्द्र पर विषयांकित परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु नियम-निर्देश एवं परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रारूप म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की - web site www.mpsos.nic.in पर अपलोड करवा दिये गये हैं। कृपया तदानुसार उक्त परीक्षा की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान भोपाल द्वारा संचालित 05 आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिये भी नियम-निर्देश यथावत रहेंगे।

(प्रभात राज तिवारी)

संचालक

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

क्रमांक / एस.ओ.एस.ई.बी./ परीक्षा-3/2024 / 1636

भोपाल, दिनांक 24/04/2024

प्रतिलिपि :-

- जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त जिला) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य (समस्त संकलन केन्द्र) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड,

म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड,
भोपाल-462011
(उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा-2024)

प्रेक्षकों (आज्ञावर्त) के लिए निर्देश

नोट :- जिला शिक्षा अधिकारी जिले के नोडल अधिकारी होगे।

(1) नोडल अधिकारी द्वारा प्रेक्षक की नियुक्ति :-

नोडल अधिकारी प्रत्येक केन्द्र पर प्रेक्षक की नियुक्ति करेंगे।

(2) प्रेक्षक का दायित्व :-

2.1 प्रेक्षक कार्य के लिये स्वीकृति देने के पूर्व प्रेक्षक यह सुनिश्चित् कर लें कि उनका कोई निकट संबंधी, पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति/पत्नी के भाई/बहन किसी भी परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति हो तो वे प्रेक्षक का कार्य स्वीकार न करें। प्रेक्षक परीक्षा के संचालन में बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निवर्हन करेंगे।

2.2 परीक्षा के तीन दिवस पूर्व

1. परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष से संपर्क करेंगे।
2. परीक्षा की समय सारणी तथा विषयवार परीक्षार्थियों की संख्या अनुसार परीक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित् करेंगे।
3. परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम एक दिन पूर्व परीक्षा केन्द्र में जाकर यह सुनिश्चित् कर ले कि परीक्षा संचालन की सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है।
4. परीक्षा केन्द्र की बैठक व्यवस्था का भी अवलोकन करें तथा सुनिश्चित् करें कि परीक्षार्थियों के बीच निर्धारित दूरी ठीक रखी गई है। तथा परीक्षार्थियों को पेपर के सेट इस प्रकार वितरित होंगे ताकि आगे पीछे या अगल बगल में समान सेट न मिले।
5. परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व प्रेक्षक केन्द्र अधीक्षक से चर्चा कर उनको गोपनीय सामग्री वितरण एवं परीक्षा उपरांत एकत्रित करने के क्रम एवं समय का विवरण समझाये।
6. प्रेक्षक को प्रत्येक परीक्षा सत्र प्रारंभ होने के कम से कम 1 घंटा पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में अनिवार्य रूप से पहुंच कर परीक्षा केन्द्र की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो निराकृत कराना होगा।

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

शिवाजी नगर, भोपाल - 462011
 (उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा-2024)

केन्द्र अधीक्षक के कर्तव्य

- (1) केन्द्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा में उसके पुत्र, पुत्री, आदि निकट संबंधी नहीं बैठ रहे हैं। वह इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
- (2) (1) परीक्षा केन्द्र पर शांति एवं सुरक्षा हेतु जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर समुचित पुलिस गार्ड की व्यवस्था करें।
 (2) वीक्षकों की बैटक लेकर उन्हें परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक निर्देशों की जानकारी दें।
- (3) केन्द्र अधीक्षक प्रत्येक कक्ष हेतु सिटिंग प्लान एवं सेट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार कर लें जिसमें परीक्षार्थियों के रोल नम्बर एवं सेट अंकित हो। कक्ष की बैटक व्यवस्था हेतु चार सिटिंग प्लान निम्नानुसार सुझाये गये हैं:-

Type - 1
 1 2 3 4 5 6

B	D	B	D	B	D
C	A	C	A	C	A
D	B	D	B	D	B
A	C	A	C	A	C
B	D	B	D	B	D
C	A	C	A	C	A

Type - 2
 1 2 3 4 5 6

D	B	D	B	D	B
A	C	A	C	A	C
B	D	B	D	B	D
C	A	C	A	C	A
D	B	D	B	D	B
A	C	A	C	A	C

Type - 3
 1 2 3 4 5 6

A	C	A	C	A	C
B	D	B	D	B	D
C	A	C	A	C	A
D	B	D	B	D	B
A	C	A	C	A	C
B	D	B	D	B	D

Type - 4
 1 2 3 4 5 6

C	A	C	A	C	A
D	B	D	B	D	B
A	C	A	C	A	C
B	D	B	D	B	D
C	A	C	A	C	A
D	B	D	B	D	B

- (i) उक्तानुसार आप अन्य प्रकार से भी सिटिंग प्लान बना सकते हैं।
- (ii) प्रश्न पुस्तिका के चार सेट अर्थात् A, B, C, D हैं।
- (iii) पास-पास (Horizontally/Vertically/Diagonally) बैटक वाले परीक्षार्थियों को एक ही सेट की प्रश्न पुस्तिका न मिल पावें।
- (4) घंटी की समय सारणी निम्नानुसार है, इसकी एक प्रति परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु सूचना पटल पर लगाई जाए तथा एक-एक प्रति सभी वीक्षकों को परीक्षा कक्ष के लिये दी जावे।
 1. प्रथम दीर्घ (10सेकेण्ड) परीक्षार्थियों का परीक्षा कक्ष में प्रवेश एवं फोटो का मिलान 9:45 से 9:50 तक।
 2. द्वितीय लघु घंटी (5सेकेण्ड) ओ.एम.आर.शीट का वितरण एवं जानकारी पूर्ति 9:50 से 10:05 तक।
 3. तृतीय लघु घंटी (5सेकेण्ड)-प्रश्न पुस्तिका का वितरण एवं पूर्ति 10:05 से 10:10 तक।

4. चतुर्थ लधु घंटी (५सेकेण्ड) - परीक्षार्थियों को उत्तर अंकित करने की अनुमति (ठीक 10:15बजे)।
5. घंटी (५सेकेण्ड)- 11:15 बजे।
6. घंटी (५सेकेण्ड)- 12:05बजे वीक्षक के द्वारा घोषणा 10 मिनिट का समय शेष बचा है (परीक्षा कक्ष के दरवाजे बंद करने के संकेत)
7. लम्बी घंटी (५सेकेण्ड)- 12:15 बजे परीक्षा समाप्त।

- (5) केब्ड अधीक्षक अपने केब्ड के लिये अपनी संस्था से सहायक केब्ड अधीक्षक, लिपिक एवं आवश्यकतानुसार भूत्य की सेवाएँ लेंगे। ये सभी व्यक्ति परीक्षा संचालन में केब्ड अधीक्षक की सहायता करेंगे।
- (6) वीक्षकों की नियुक्ति केब्ड अधीक्षक द्वारा पूरी सावधानी से करनी होगी। जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बनी रहे। संस्था के वरिष्ठ शिक्षक राजपत्रित अधिकारी स्तर के ही, वीक्षक नियुक्त किए जाएं। यदि अपेक्षित संख्या के अधिकारी उपलब्ध नहीं तो दूसरी शैक्षणिक संस्था के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। किसी भी स्थिति में लिपिकीय वर्ग/प्रयोगशाला का स्टाफ/तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ वीक्षक के रूप में नियुक्त न किया जाये।
- प्रत्येक 20 परीक्षार्थियों के लिए एक वीक्षक आवंटित किया जाये तथा एक कक्ष में कम से कम दो वीक्षक तैनात किये जायें जहां तक संभव हो केवल ऐसे कक्षों का चयन किया जाये जहां दो वीक्षकों की नियुक्ति व्यायासंगत हो (अर्थात् 30 की क्षमता से कम वाले कक्ष, जहां तक संभव हो न लिये जाये)।
- (7) (i) केब्ड अधीक्षक परीक्षा के विभिन्न भेजे गये सील बंद लिफाफों को प्रेक्षकों (Observers) की उपस्थिति में ही खोलें।

- (ii) परीक्षार्थी की सीट पर जाकर, परीक्षार्थियों को वितरित की गई ओ.एम.आर. शीट के निर्धारित स्थान पर प्रथम आधे घंटे में अपने केब्ड की सील लगवावें। (कृपया उपयोग में न लाई गई ओ.एम.आर. शीट पर सील न लगायें) रबर सील का नमूना निम्नानुसार है:-

केब्ड अधीक्षक

प्रवेश परीक्षा - 2024

- (iii) इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उत्तरशीट गिनते, रखते या वितरित करते समय यह न तो मुझे न मैली हों, न गीली हों, न ही इसके किनारों को कोई बुकसान पहुंचे अव्यथा ओ.एम.आर. मशीन इसे ठीक से नहीं पढ़ेगी। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थियों की सीटें व डेस्क, तैनात कर्मचारियों द्वारा अच्छी तरह से पौछ ली गई हैं।
- (8) प्रश्न पुस्तिका प्रत्येक पैकेट के ऊपर सेट अक्षर A या B या C या D सीरीज क्रमांक, प्रश्न -पत्रों के क्रमांक, प्रश्न-पत्र का विषय, इसके अंदर कितने प्रश्न पत्र हैं मुद्रित है, तदनुसार ओ.एम.आर.शीट की पूर्ति करावें। पैकेट खोलने के पूर्व :-
- (i) प्रेक्षक एवं केब्ड अधीक्षक, प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट पर पड़ी सील की जांच सावधानीपूर्वक करें।
 - (ii) पैकेट्स के ऊपर वीक्षकों, प्रेक्षक एवं केब्ड अधीक्षक के हस्ताक्षर लिए जाएं।
 - (iii) प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट खोलते समय यह सावधानी बरतेंगे कि पैकेट पर पड़ी सील न ढूटे। यदि केब्ड अधीक्षक यह पाता है कि उसके केब्ड से बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या से उपलब्ध प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या कम हो तो वे सबसे पास के केब्ड अधीक्षक से आवश्यकतानुसार प्रश्न पुस्तिकाएं प्राप्त कर लें, और जिन परीक्षार्थियों का समय नष्ट हुआ हो उसे अतिरिक्त समय देवें परन्तु इस अतिरिक्त समय में इन विद्यार्थियों पर वीक्षक और केब्ड अधीक्षक विशेष निगरानी रखें।

- (9) (i) परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के अंदर उपयोग में न लाई गई प्रश्न पुस्तिकाएं प्रत्येक परीक्षा कक्ष से वापस बुलवा ली जाएं तथा प्रेक्षक की उपस्थिति में इन्हें कंट्रोल रूम में बची प्रश्न पुस्तिकाओं (न खोले गए) के साथ पैक करके सील कर दी जावें।
- (ii) केब्ड अधीक्षक प्रत्येक शिफ्ट में इस बात पर निगरानी रखेंगे कि प्रारंभ में ओ.एम.आर.शीट पर दो वीक्षकों में से केवल प्रथम वीक्षक ने उसके जिम्मे आने वाले परीक्षार्थियों की ओ.एम.आर.शीट में किए गए इन्ड्राज की जांच करने के उपरांत उत्तरशीट पर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। (न कि दोनों वीक्षकों ने)
- (iii) द्वितीय वीक्षक को ओ.एम.आर.शीट में निर्धारित स्थान पर परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् पुनः इन्ड्राज की जांच कर हस्ताक्षर करना है। प्रायः द्वितीय वीक्षक परीक्षा समाप्ति के पूर्व ही ओ.एम.आर.शीट पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरह वे अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाते हैं अतः केब्ड अधीक्षक इस बात की ओर वीक्षक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करें तथा उन्हें इसे गंभीरता से लेने की हिदायत दें। यह निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- (10) परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे के अंदर प्रत्येक परीक्षा कक्ष से निम्नलिखित सामग्री एकत्रित कर लें :-
- (i) रासा (RASA)
 - (ii) प्रत्येक कक्ष से अनुपस्थिति पत्रक (ABSENTEE STATEMENT)
- (11) किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी :-
परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
- (12) नियम पुस्तिका व विनिमय में उल्लेखित टीप अनुसार अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर कार्यवाही :-
- (i) यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष में कोई अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो वीक्षक तुरंत उस परीक्षार्थी के पास पाए जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री एवं प्रश्न पुस्तिका एवं ओ.एम.आर.शीट को अपने अधिकार में ले लेंगे एवं तुरंत इसकी सूचना केब्ड अधीक्षक एवं प्रेक्षक को देंगे। परीक्षार्थी के ऐसे प्रकरणों के लिए निर्धारित प्रारूप भरने के लिए निर्देशित करें। आपत्तिजनक सामग्री पर वीक्षक भी अपने हस्ताक्षर, दिनांक, समय लिखते हुए करें।
 - (ii) अनुचित साधन के प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी की ओ.एम.आर.शीट मय आपत्तिजनक सामग्री के एक अलग लिफाफे में सीलकर भेजें। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट हो “अनुचित साधन प्रयोग प्रकरण, परीक्षार्थी का नाम परीक्षा केब्ड, परीक्षा शहर, विषय, दिनांक” ऐसे प्रकरण की सूचना मंडल को उसी दिन भेजना होगा।
- (13) परीक्षा उपरांत सामग्री लौटाते समय नीचे लिखे अनुसार सामग्री को व्यवस्थित किया जाये।
वीक्षकगण से परीक्षा कक्ष से निम्नलिखित दस्तावेजों को भरकर प्राप्त करें :-
- (i) कक्षवार वीक्षक की रिपोर्ट। इस पर वीक्षक का पूरा नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए।
 - (ii) सिटिंग प्लान, जिसमें परीक्षार्थी का रोल नं. प्रश्न पुस्तिका के सेट अक्षर सहित दिया गया है। इस पर भी वीक्षकों के पूरे नाम, पदनाम, संस्था जहां कार्यरत है एवं हस्ताक्षर होना चाहिए।
 - (iii) रासा।
 - (iv) वीक्षक से प्राप्त ओ.एम.आर.शीट क्रम से जमा कर रखें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक ओ.एम.आर.शीट पर परीक्षार्थी एवं दोनों वीक्षकों ने हस्ताक्षर किये हों। अनुपस्थित परीक्षार्थियों की ओ.एम.आर.शीट पर अनुपस्थित के स्थान पर गोला काला करते हुये वीक्षक पूर्ति कर हस्ताक्षर करेंगे।
 - (v) केब्ड पर दर्ज समस्त परीक्षार्थियों की ओ.एम.आर.शीट, क्रम से जमाकर, अधिकतम 200-200 के पैकेट

तदोपरांत कपड़े से सावधानी पूर्वक सील्ड पैक कर उस पर कुल छात्र संख्या उपस्थित एवं अनुपस्थित छात्र संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें केब्ड अधीक्षक एवं प्रेक्षक की सील लगाना है उसी दिन SOM/SOE एवं आदर्श कन्या संस्कृत विद्यालय की निम्न सामग्री का पृथक-पृथक लिफाफे तैयार करें। संकलन केब्ड प्राचार्य के पास जमा कराये। जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग एवं मार्गदर्शन में संकलन केब्ड प्राचार्य सील्ड बंडलों को दिनांक 01.05.2024 संयुक्त संचालक (शिक्षा) कार्यालय में जमा कराये। संयुक्त संचालक कार्यालय के परीक्षा प्रभारी SOM/SOE एवं आदर्श कन्या संस्कृत विद्यालय की निम्न सामग्रीयों के पृथक-पृथक पैक बंडल राज्य स्तर पर संस्था शा.सरोजनी नायदू उ.मा.वि. में दिनांक 02.05.2024 को शाला समय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vi) कुल दर्ज परीक्षार्थी उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या बंडल के ऊपर अनिवार्यतः अंकित करें।

- पर्सनलाइज्ड ओ.एम.आर.शीट्स (200-200 के पैकेट्स) (अनुपस्थित छात्रों की ओ.एम.आर.शीट्स भी शामिल करना है।)

- शेष बची हुई अतिरिक्त ओ.एम.आर.शीट्स (नॉन पर्सनलाइज्ड)

- रासा

- चेक लिस्ट

- रिपोर्ट्स

वीक्षक रिपोर्ट

प्रेक्षक रिपोर्ट

केब्डाध्यक्ष रिपोर्ट

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

शिवाजी नगर, भोपाल - 462011
(उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा-2024)

वीक्षकों हेतु निर्देश (Instruction for Invigilators)

- (1) परीक्षा केन्द्रों में वीक्षकों की नियुक्ति केन्द्र अधिक्षक द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
- (2) वीक्षक यह शपथ पत्र देगा कि उसका कोई निकट संबंधी परीक्षा केन्द्र में नहीं बैठ रहे हैं।
- (3)
 - (1) वीक्षक को परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक कार्यालय में परीक्षा आरंभ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व पहुँच जाना है और परीक्षा समाप्ति उपरांत कार्यवाही पूर्ण होने पर केन्द्र छोड़ना है।
 - (2) वीक्षक प्रश्न-पुस्तिकाओं एवं ओ.एम.आर.शीट्स के बंडल को गिनकर यह सुनिश्चित करें कि उसे दी जाने वाली सामग्री उतनी है जितनी उसे परीक्षा कक्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र में अंकित की गई है। सामग्री पूरी तरह से गिनकर एवं आश्वस्त होकर वीक्षक ओ.एम.आर.उत्तर-शीट्स एवं अपने परीक्षा कक्ष से संबंधित फोल्डर को लेकर ही परीक्षा कक्ष की ओर जायेंगे। वीक्षक को परीक्षा आरंभ होने के 45 मिनिट पूर्व परीक्षा कक्ष में पहुँच जाना है।
 - (3) अभ्यार्थी को अन्दर प्रवेश हेतु अनुमति देने के पूर्व वीक्षक अभ्यार्थी की जांच कर प्रवेश पत्र से उसका फोटो मिलावें, सही पाये जाने पर ही उन्हें ओ.एम.आर.शीट्स और प्रश्न पत्र वितरित करें।
- (4) यह सुनिश्चित करें कि:-
 - (4.1) परीक्षार्थी अपनी-अपनी सीट पर परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम आधा घंटा पूर्व निर्धारित कक्ष में बैठ जाये। प्रथम 5 मिनिट में वीक्षक परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में तथा रासा में परीक्षार्थी का फोटो चैक करेगा। किसी भी परिस्थिति में बगैर फोटो वाले प्रवेश पत्र लिए परीक्षार्थी को परीक्षा में न बैठने देवें। परीक्षार्थी का फोटो, रासा के फोटो से मिलान किया जाये।
 - (4.2) उक्त के पश्चात 15 मिनिट में ओ.एम.आर. शीट में परीक्षार्थी द्वारा आवश्यक जानकारी की पूर्ति काले बाल पेन (लीड) से कर, गोलो को काला किया जाना है।
 - (4.3) इसके पश्चात वीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न पुस्तिकाएं वितरित करेंगे। इसके पश्चात 5मिनट में केवल प्रश्न पुस्तिकाओं को खोलकर निम्नलिखित जांच करेंगे :-
 - (1) प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर जितने प्रश्नों की संख्या छपी है उतने ही प्रश्न अंदर भी हें।
 - (2) प्रश्न पुस्तिकाओं के सभी पृष्ठों में छपाई स्पष्ट है, कोई पन्ना फटा हुआ नहीं है या कोई पन्ना बाइंड ही नहीं किया हो या, कोई पृष्ठ दो बार बाइंड हो गया है इत्यादि।

अनुपस्थित है तो आधे घंटे पश्चात् अनुपस्थित परीक्षार्थी की ओ.एम.आर.शीट्स में वीक्षक स्वयं पूर्ति कर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

- (4.4) (1) परीक्षा के दौरान उपस्थित समस्त परीक्षार्थियों द्वारा की गयी पूर्ति की जांच के साथ रासा (उपस्थिति पत्रक) में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाये जावें चूंकि 20 परीक्षार्थियों के लिए एक वीक्षक की व्यवस्था है अतः जिस वीक्षक द्वारा समस्त पूर्ति की जांच की गयी है उसे अन्य वीक्षक परीक्षा समाप्ति पर क्रॉस चैक कर ही ओ.एम.आर.शीट पर द्वितीय वीक्षक के लिए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- (2) अनुपस्थित परीक्षार्थी की ओ.एम.आर.शीट पर वीक्षक गोला काला कर हस्ताक्षर करे क्रम में रखें।
- (3) परीक्षा के उपरांत प्रत्येक ओ.एम.आर.शीट की जांच एवं निगरानी के पश्चात् क्रम से ओ.एम.आर.शीट जमा कर केन्द्र अधीक्षक को वापस लौटावे।

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

भोपाल - 462011

(उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा-2024)

कक्षावार सीटिंग प्लान

नोट : (इस प्रोफार्मा के पीछे 4 प्रकार के सीटिंग प्लान दिये गये हैं, प्रत्येक शिफ्ट में अलग-अलग प्लान का चयन करें।)

परीक्षा का नाम शहर

(क) कुल दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या (ख) अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या

इस प्रोफार्मा की 2 प्रतियाँ वीक्षक की नस्ती में रखी जाए एवं वीक्षक अनुपस्थिति परीक्षार्थियों के रोल नंबर को गोला लगाकर चिह्नित करें।

	1 Column	2 Column	3 Column	4 Column	5 Column	6 Column
	रोल नं.	रोल नं				
Row 1						
Row 2						
Row 3						
Row 4						
Row 5						
Row 6						

Position of gate may be shown as per actual location

वीक्षक का नाम	पद	संस्था जहां कार्यरत है	हस्ताक्षर

केब्ड अधीक्षक के हस्ताक्षर व सील

अन्य जानकारी :- 1- Total Registered ----- 2- Total Registered ----- 3- Total Registered -----

Account of Question Book Set :-

Set	Supplied	Used	Replaced Returned
A			
B			
C			
D			

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

शिवाजी नगर, भोपाल -462011

(उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा-2024)
-केन्द्राध्यक्ष रिपोर्ट

परीक्षा केन्द्र का नामकेन्द्राध्यक्ष का नाम एवं मो.नं.....

(1) रासा में अंकित रोल नं.....सेतक कुल संख्या.....

(2) प्राप्त ओ.एम.आर. शीट्स

(3) उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्यापरीक्षार्थियों से प्राप्त ओ.एम.आर. शीट्स संख्या.....

(4) अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्यावीक्षक द्वारा भरी (अनुपस्थित) ओ.एम.आर. शीट्स की संख्या.....

(5) यदि अतिरिक्त ओ.एम.आर.शीट्स उपयोग की गई तो उसकी संख्या

(6) यू.एफ.एम. प्रकरण एवं अनुक्रमांक.....

रोल नं. से रोल नं. तक	कुल ओ.एम.आर.शीट्स की संख्या	अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक
.....
.....
.....
प्राप्त ओ.एम.आर. शीट्स का योग -अतिरिक्त
प्रदाय ओ.एम.आर.शीट्स के अनुक्रमांक

प्रेक्षक के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम एवं संस्था

नोट : 1. अनुपस्थित परीक्षार्थियों को आवंटित ओ.एम.आर. शीट्स के निर्धारित गोले को वीक्षक काला कर अपने हस्ताक्षर करेंगे। एवं उपस्थित परीक्षार्थियों की ओ.एम.आर.शीट्स के साथ निर्धारित क्रम में रखेंगे।

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम एवं संस्था

1. अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर उनके अनुक्रमांक पृष्ठ भाग पर अंकित किए जावें।

म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड,

भोपाल-462011

(उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा-2024)

केन्द्र अधीक्षक रिपोर्ट (प्रश्न पुस्तिकाओं व उत्तरशीट्स लेखा)

परीक्षा केन्द्र का नाम केन्द्राध्यक्ष का नाम एवं मो.नं.

प्रेक्षक का नाम एवं मो.नं. परीक्षा समय से तक

केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या

भाग -एक

विषय एवं समय	सेट	कुल प्राप्त प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या i	उपयोग की गई प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या (रद्द प्रश्न पुस्तिकाएं छोड़कर) ii	उपयोग न की गई प्रश्न पुस्तिकाओं की संख्या iii	रिमार्क (यदि कोई हो तो) रद्द की गई प्रश्न पुस्तिकाएं iv	वापस की गई पुस्तिकाएं iii+ iv	हस्ताक्षर प्रेक्षक एवं केन्द्र अधीक्षक
उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024	A						
	B						
	C						
	D						

भाग-दो ओ.एम.आर.शीट्स का लेखा

प्रदत्त पर्सनलाइज्ड ओ.एम.आर. शीट्स की कुल संख्या	उपयोग की गई पर्सनलाइज्ड ओ.एम.आर.शीट्स की संख्या	नॉन पर्सनलाइज्ड प्रदाय ओ.एम.आर. शीट्स की संख्या	उपयोग की गई नॉन पर्सनलाइज्ड ओ.एम.आर. शीट् की संख्या एवं उनका क्रमांक एवं छात्र का अनु. क्रमांक	लौटाई गई कोरी नॉन पर्सनलाइज्ड ओ.एम.आर. शीट्स की संख्या

कुल जमा की गई (परीक्षार्थियों अनुपस्थित परीक्षार्थियों (वीक्षक द्वारा भरी) ओ.एम.आर.शीट्स की संख्या

(1) हस्ताक्षर प्रेक्षक

नाम व पदनाम

(2) केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

भोपाल - 462011

(उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा-2024)

केन्द्र की सील परीक्षा शहर

वीक्षक की रिपोर्ट (Report of Invigilator)

परीक्षा केन्द्र का नाम परीक्षा की तिथि परीक्षा का समय

(क) कुल दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या (ख) अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या

(ग) उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या

अनुपस्थित परीक्षार्थियों के रोल नंबर (यदि लिखने में त्रुटि हो जाये तो एक आँखी रेखा से काटकर ऊपर पुनः स्पष्ट

लिखें, ओवर राइटिंग न करें।)

(घ) यदि किसी विद्यार्थी को अतिरिक्त ओ.एम.आर.शीट्स दी गई है तो उसका नाम एवं अनुक्रमांक.....

(इ) अनुचित साधन का उपयोग करते पकड़े गये परीक्षार्थियों के रोल नंबर कुल संख्या

(च) उत्तरशीर्षों एवं प्रश्न-पुस्तिकाओं का लेखा

समग्री	केन्द्र अधीक्षक द्वारा दी गई संख्या					परीक्षार्थियों द्वारा उपयोग में लाई गई संख्या (UFM) सहित					केन्द्र अधीक्षक को परीक्षा प्रारंभ होने 1/2 घंटे के अंदर लौटाई गई संख्या (रद्द की गई उत्तरशीट्स) एवं खराब पाई गई प्रश्न-पुस्तिकाओं सहित				
उत्तरशीट्स															
प्रश्न-पुस्तिकाएं	A	B	C	D	योग	A	B	C	D	योग	A	B	C	D	योग

क्र.	वीक्षक का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1			
2			
3			

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

शिवाजी नगर, भोपाल - 462011

(उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा-2024)

अनुचित साधन वाले प्रकरण (यू.एफ.एम.) UNFAIR MEAN (s) CASES (UFM)

परीक्षा केन्द्र की सील शहर

परीक्षार्थी का नाम एवं पता परीक्षा समय.....

जिस अनुचित साधन का उपयोग

करते हुए पाया गया

(क) परीक्षार्थी के पास से प्राप्त नकल संबंधी सामग्रियों का था आपस की बातचीत का विस्तृत विवरण :- (इन सामग्रियों पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिये जाये तथा उन पर वीक्षक, केन्द्र अधीक्षक एवं प्रेक्षक प्रति हस्ताक्षर करें)

(ख) यदि परीक्षार्थी किसी परीक्षार्थी से संपर्क (Communicate) कर रहा था, तो

(1) वह किससे पूछ रहा था? नाम रोल नं.....

(2) पूछने पर क्या दूसरे परीक्षार्थी ने बताया?

जो लागू हो उसके नीचे टिक करें

हाँ

नहीं

परीक्षार्थी के स्वयं की लिखावट में कथन :-

(क) (1) क्या उपरोक्त सामग्रियां आपसे जब्त की गई?

(2) इन्हें आपने पास क्यों रखा था?

(3) क्या इनमें से किसी का उपयोग आपने किया?

परीक्षार्थी के स्वयं का व्यान

(ख) आपने (नाम) से क्यों पूछा?

/आपने क्यों बताया आपको और कुछ कहना है?

दिनांक समय परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी द्वारा उपरोक्त कथन मेरी उपस्थिति में लिया गया है/परीक्षार्थी ने कोई कथन देने से इंकार किया (जो लागू न हो उसे काट दें)

वीक्षक के हस्ताक्षर

1 1

2 2

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक समय

म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड
भोपाल - 462021
(उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा 2024–25)

घोषणा-पत्र

मैं, घोषणा करता/करती हूं कि उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा 2024–25 में मेरा कोई संबंधी (जैस – पति, पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, पत्नी के भाई/बहन) प्रविष्ट नहीं हो रहा/रही है।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि उक्त परीक्षा से संबंधित जो भी गोपनीय कार्य मुझे सौंपा जावेगा उसे मैं निष्ठा, ईमानदारी एवं परिश्रम के साथ सम्पन्न करूंगा/करूंगी तथा उसकी गोपनीयता किसी भी प्रकार से भंग नहीं करूंगा/करूंगी।

3. यदि इस घोषणा-पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है, तो म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड मेरे विरुद्ध विभागीय जाँच व वैधानिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सं.क्र.	नाम	पदनाम	संस्था	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

केन्द्राध्यक्ष का नाम

केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर.....

सील.....

मो.नं.....

दिनांक.....